

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या - 07/2019

शिव रतन महतो बनाम् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

03/03/2021

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या-24/2018 ट्रैक्टर संख्या-अनिबंधित के स्वामी में दिनांक-05.11.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। दिनांक-07.08.2019 को प्रविष्टि के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुनने के उपरान्त वाद अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया तथा सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है। इनका यह भी कहना है कि उक्त ट्रैक्टर पर लदा कोयला वन भूमि अन्तर्गत उत्खनित नहीं है, इस लिए भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 का उल्लंघन के आरोप में धारा-52(3) के तहत राज्यसात की कार्रवाई नियम संगत नहीं है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-52(3) के तहत राज्यसात की कार्रवाई को Set-aside करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-52(3) के तहत राज्यसात की कार्रवाई तभी विधिवत माना जा सकता है, जब जप्त कोयला वन भूमि सीमान्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र से अवैध उत्खनन किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची तथा पारित आदेश में अवैध खनन की भूमि से सम्बन्धित खाता/प्लॉट का कोई जिक्र नहीं है। अतः इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जप्त की गई वाहन में लदा कोयला अधिसूचित वन सीमा अन्तर्गत उत्खनित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-33 के उल्लंघन के आरोप में धारा-52(3) के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात से सम्बन्धित कार्रवाई के सम्बन्ध में पारित आदेश को Set-aside करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं सशोधित।

उपायुक्त, 03/03/21
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।